

दिनांक-02/12/2021 को सेंट्रल अकेडमी फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, कोयम्बटूर के 36 एफ. आर. ओ. प्रशिक्षणार्थियों ने आफरी का भ्रमण किया

दिनांक-02/12/2021 को सेंट्रल अकेडमी फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, कोयम्बटूर के 36 एफ. आर. ओ. प्रशिक्षणार्थियों ने श्री वी.एस.सेंथिल कुमार भा.व.से. के नेतृत्व में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का शैक्षिक भ्रमण किया गया। श्रीमती अनीता, भा.व.से., प्रभागाध्यक्ष विस्तार ने सभी का संस्थान में स्वागत किया गया।



भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम संस्थान के निदेशक श्री एम.आर. बालोच, भा.व.से द्वारा अपने उद्बोधन में आफरी के समस्त प्रभागों के संबंध में जानकारी दी गई तथा लूनी डी.पी.आर.(DPR) व प्रस्तावित अरावली प्रोजेक्ट के बारे में भी ने प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी दी गई।

इसके पश्चात डॉ. तरुण कान्त वैज्ञानिक- एफ ने पावर पाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संस्थान का Overview (overview of research of AFRI) प्रस्तुत किया। डॉ. तरुण कान्त ने अपने प्रस्तुतीकरण में अनुसंधान हाइलाइट्स (Research highlight) सतही वनस्पति द्वारा टिब्बा स्थिरीकरण पौधों की स्थापना एवं वृद्धि हेतु मृदा एवं जल संरक्षण, अवक्रमित पहाड़ियों के पुनर्वासन, शुष्क क्षेत्रों के लिए कृषि वानिकी मोडल्स व विकास, एग्रीसिल्वी एवं सिल्वीपाश्चर मोडल, लवणीय भूमि का पुनर्स्थापन, जल प्लावित भूमि का पुनर्स्थापन, पौधारोपण सामग्री का सुधार (planting stock improvement), नीम एवं अरडू के लिए सुधार कार्य (improvement work on Neem & Ardu), रोहिडा एवं मलाबार नीम, गुगल का संवर्धन एवं उत्पादन, विकसित वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोटोकॉल्स (develops vegetative propagation protocols), उत्तक संवर्धन विधियां (Tissue culture protocol), एन्डेजरड मेडिसिनल पादप गुगल के लिए उत्तक संवर्धन विधियां (Tissue culture protocols for ending medicinal plants, *Commiphora wightii*), कैर का सूक्ष्म प्रवर्धन (Micropropagation of capparid decidua), विकसित तकनीकों इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी एफ. आर. ओ. प्रशिक्षणार्थियों को दी गई।

तत्पश्चात प्रशिक्षणार्थियों के दल ने संस्थान के विस्तार एवं निर्वचन केन्द्र का भ्रमण कर वहां प्रदर्शित विभिन्न शोध गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का अवलोकन किया। यहां श्री धाना राम,

वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी एवं श्री अनिल सिंह चौहान, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी ने केन्द्र में प्रदर्शित विभिन्न सूचनाओं एवं सामग्री के बारे में भ्रमणकारी अधिकारियों को जानकारी दी।  
भ्रमण की कुछ झलकियां (glimpses) निम्न है-

